

**SADHNA BROADCAST LIMITED**  
[Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited]

---

CIN: L92100DL1994PLC059093

To,

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai- 400001

Metropolitan Stock Exchange Limited  
4th Floor, Vibhgyog Tower, Opposite  
Trident Hotel, Bandra Kurla Complex  
Mumbai-400098

**Subject: Disclosure of Issuance of Notice of EGM as per sub-regulation 4 of regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir,

With reference to captioned subject, please find enclosed herewith Notice of Extra-Ordinary General Meeting of the Company to be held on 15<sup>th</sup> January, 2020, alongwith the clippings of English Newspaper "**Financial Express**" and Hindi Newspaper "**Jansatta**" dated **24/12/2019** in which Notice of EGM has been published.

Please find the same enclosed herewith.

Kindly consider and take our submission in your records.

Thanking You  
Yours faithfully

For SADHNA BROADCAST LIMITED

**Sadhna Broadcast Limited**  
*Tajinder*  
**Managing Director**

Tajinder Kaur  
Designation: Managing Director  
DIN: 06799570  
Address: 24/27 Front Side,  
West Patel Nagar DELHI 110008

Date : 25.12.2019

Place : New Delhi

---

Registered Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi- 110055

Email ID: [cbnl.delhi@gmail.com](mailto:cbnl.delhi@gmail.com), Website: [www.sadhnabroadcast.com](http://www.sadhnabroadcast.com)

Phone: 91-11-23552627, Fax No.: 91-11-23524610



at 2002 and in exercise of powers (Enforcement) Rules 2002, issued mentioned in the schedule below to date of receipt of the said notices. Notice is hereby given to borrower(s) possession of the property described in said Act read with rule 8 of the said

is hereby cautioned not to deal of Bank of India for the amount is invited to the provisions of Sub cured assets.

Property	O/S as mentioned in the notice U/S 13(2)/ Date of Demand/ Possession Notice
Consisting of EQM No. 4, Mohalla Dehat, Teh. & Shore S/o Ram Road 15 ft. Plot of Prakash	₹ 7,68,047/- + Intt. & other charges
	16-08-19
	18-12-19

ised Officer, Bank of India

Sadar Main Delhi Rohtak 24507 Ph.: 01276-231039

Sarfaesi Act, 2002 Demand Notice)

principal and payment of interest of credit Assets. The Notice under Section 13(2) Interest Act 2002 have been issued by however, in some of the cases the notices received. As such Borrowers/ Guarantors

Date of NPA	Amount Outstanding
06.11.2019	Rs. 5155635.00
02.12.2019	as on 02.12.2019

o. 435/388 Mln, Khatoni No. 552, Mustil No. date of Village Parnal Gali No. 8 Model Town and bounded by East Land of Sh. Banshi her Property

unt mentioned in the notice within 60 ps will be taken as per provisions of urity Interest Act 2002 after the expiry s/Mortgagors are all also advised to

AGM & Authorized Officer, Andhra Bank

Lucknow

**SADHNA BROADCAST LIMITED**  
[Formerly known as Chirau Broadcast Network Limited]  
Regd. Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi- 110055  
E-mail : cbnl.delhi@gmail.com, Website : www.sadhnabroadcast.com  
CIN NO : L92100DL1994PLC059093, Phone : 91-11-23552627

**NOTICE**  
Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 15<sup>th</sup> January 2020, at 03:00 P.M. at 37<sup>th</sup>, Second Floor, Jhandewala, Central Delhi- 110008.

- To transact the Special Business, as set out in the Notice of the EGM.
- The Notice of the EGM has been sent to the members on 23<sup>rd</sup> December, 2019 and the same is uploaded at evoting@nsdl.co.in and www.sadhnabroadcast.com
- Members holding shares as on cut- of date i.e. 03<sup>rd</sup> January, 2020 may cast their vote electronically on the special business as set out in the Notice of the EGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period shall commence on Sunday, 12<sup>th</sup> January, 2020 (09:00 A.M.) till Tuesday, 14<sup>th</sup> January, 2019 (5:00 P.M.)
- E-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The members who have cast their vote by e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through polling papers. A person, who acquires shares and become shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cutoff date can do remote e-voting by obtaining the login - id and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or www.sadhnabroadcast.com by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user -id and password can be used for casting your vote.
- The Company has appointed Mr. Vivek Kumar, Practicing Company Secretary of V Kumar & Associates as the Scrutinizer to Scrutinize the e- voting process in a fair and transparent manner
- In case you have any grievances connected with e-voting, please refer the e-voting manual/ Frequently Asked Questions (FAQs) available at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Virender Rana, Director, Skyline Financial Services Private Limited., Registrar of Transfer Agent, 9, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110 020 at telephone 011-64732681 to 88 and email at viren@skyliner.com. Members may also write to the Company at the above mentioned address or email at cbnl.delhi@gmail.com

9. NOTICE IS FURTHER given pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 (including rules), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 04<sup>th</sup> January, 2020 to 14<sup>th</sup> January, 2020 (both days inclusive) for the said EGM.

By order of the Board  
For Sadhna Broadcast Limited  
Sd/-  
Tajinder Kaur  
Director  
Place : New Delhi  
Date : 23.12.2019  
DIN : 06799570

Place : New Delhi DIN:00033763

**SHARPLINE BROADCAST LIMITED**  
[Formerly known as Archit Holdings And Credits Limited]  
Regd. Office: 37, Second Floor, Rani Jhansi Road, Motia Khan, Paharganj, Delhi- 110055  
E-mail : sharplinebroadcastlimited@gmail.com, Website: www.sharplinebroadcast.in  
CIN:L22100DL1990PLC039464, Phone : 91-11-23552627

**NOTICE**  
Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 15<sup>th</sup> January 2020, at 10:00 A.M. at 37<sup>th</sup>, Second Floor, Jhandewala, Central Delhi- 110008.

- To transact the Special Business, as set out in the Notice of the EGM.
- The Notice of the EGM has been sent to the members on 23<sup>rd</sup> December, 2019 and the same is uploaded at evoting@nsdl.co.in and www.sharplinebroadcast.in
- Members holding shares as on cut- of date i.e. 03<sup>rd</sup> January, 2020 may cast their vote electronically on the special business as set out in the Notice of the EGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period shall commence on Sunday, 12<sup>th</sup> January, 2020 (09:00 A.M.) till Tuesday, 14<sup>th</sup> January, 2019 (5:00 P.M.)
- E-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The members who have cast their vote by e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through polling papers. A person, who acquires shares and become shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cutoff date can do remote e-voting by obtaining the login - id and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in or www.sharplinebroadcast.in by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user -id and password can be used for casting your vote.
- The Company has appointed Mr. Vivek Kumar, Practicing Company Secretary of V Kumar & Associates as the Scrutinizer to Scrutinize the e- voting process in a fair and transparent manner
- In case you have any grievances connected with e-voting, please refer the e-voting manual/ Frequently Asked Questions (FAQs) available at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Virender Rana, Director, Skyline Financial Services Private Limited., Registrar of Transfer Agent, 9, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110 020 at telephone 011-64732681 to 88 and email at viren@skyliner.com. Members may also write to the Company at the abovementioned address or email at sharplinebroadcastlimited@gmail.com

9. NOTICE IS FURTHER given pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 (including rules), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 04<sup>th</sup> January, 2020 to 14<sup>th</sup> January, 2020 (both days inclusive) for the said EGM.

By order of the Board  
For Sharpline Broadcast Limited  
Sd/-  
Paras Shah  
Director  
Place : New Delhi  
Date : 23.12.2019  
DIN : 07070206

6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	10/10/2019 Vide NCLT Order CP (IB) 1896 (ND/2019 dated 10/10/2019.)
7. Date of invitation of expression of interest	24/12/2019
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The eligibility criteria for prospective resolution applicants can be accessed from <a href="https://ibbi.gov.in/legal-framework/act">https://ibbi.gov.in/legal-framework/act</a> or can be obtained by email to irpgsprocon2019@gmail.com
9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	The ineligibility criteria for prospective resolution applicants can be accessed from <a href="https://ibbi.gov.in/legal-framework/act">https://ibbi.gov.in/legal-framework/act</a> or can be obtained by email to irpgsprocon2019@gmail.com
10. Last date for receipt of expression of interest	08/01/2020
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	18/01/2020
12. Last date for submission of objections to provisional list	23/01/2020
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	02/02/2020
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	23/01/2020
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Interim Resolution professional will share the document through Email: irpgsprocon2019@gmail.com In accordance with the provisions of the code and regulations made there under.
16. Last date for submission of resolution plans	22/02/2020
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	The Resolution plans will be send on Email: irpgsprocon2019@gmail.com
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	07/04/2020
19. Name and registration number of the resolution professional	Sunil Kumar Agrawal Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-18/10222
20. Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Sunil Kumar Agrawal E-29, South Extention- II, New Delhi- 110049 Email: aggarwalsk21@yahoo.com
21. Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	904, GF, Sector- 7C, Faridabad- 121006 Email: irpgsprocon2019@gmail.com
22. Further Details are available at or with	Further details can be sought by the Email: irpgsprocon2019@gmail.com
23. Date of publication of Form G	24/12/2019

Sunil Kumar Agrawal  
Interim Resolution Professional  
IBBI/IPA-002/IP-N00081/2017-18/10222  
E-29, South Extention- II, New Delhi- 110049  
Date: 24/12/2019  
Place: New Delhi

New Delhi



**साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड**  
**(पूर्व में चिरायु ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड)**  
 पंजी. कार्यालय: 37 दूसरा तल, रानी झॉंसी रोड, मोतिया खान,  
 पहाड़गंज, दिल्ली-110055  
 ईमेल: cbnl.delhi@gmail.com,  
 वेबसाइट: www.sadhnabroadcast.com  
 CIN: L92100DL1994PLC059093, फोन: 91-11-23552627

**सूचना**

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की अ-साधारण सभा बुधवार, 15 जनवरी, 2020 को 03.00 बजे अप. में 37, दूसरा तल, इण्डेवाला, मध्य दिल्ली-110008 में आयोजित की जायेगी।
1. जिसमें ईजीएम की सूचना में वर्णित विशेष व्यवसायों को निष्पादित किये जाएंगे।
  2. ईजीएम की सूचना 23 दिसम्बर, 2019 को सदस्यों को भेज दी गई है तथा वह evoting@nsdl.co.in तथा www.sadhnabroadcast.com पर अपलोड कर दी गई है।
  3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 3 जनवरी, 2020 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि रविवार, 12 जनवरी, 2020 को (9.00 बजे पूर्वा.) से मंगलवार, 14 जनवरी, 2020 (5.00 बजे अप-तक) जारी रहेगी।
  4. ई-वोटिंग के लिये उक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
  5. जिन सदस्यों ने ईजीएम से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे ईजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
  6. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मत पत्र द्वारा सभा में मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का शेयरधारक बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे अपने फोलिओ नं./डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेख कर evoting@nsdl.co.in अथवा www.sadhnabroadcast.com पर ई-मेल भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि ऐसे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के लिये आप अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
  7. स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री विवेक कुमार, कार्यरत कम्पनी सचिव, वी कुमार एंड एसोसिएट्स को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
  8. यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो कृपया evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युअल/Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या श्री विरेन्द्र राणा, निदेशक स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, अंतरण एजेन्ट के रजिस्ट्रार, 9, डी-153ए, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 से टेलीफोन नं. 011-64732681 से 88 पर सम्पर्क करें तथा virenr@skylin-erta.com पर ई-मेल करें। सदस्यगण उक्त पते पर कम्पनी को भी लिख सकते हैं अथवा cbnl.delhi@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
  9. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 101 (नियमावली सहित) के अनुपालन में एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 4 जनवरी, 2020 से 14 जनवरी, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक उक्त ईजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से  
 साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिये  
 हस्ता./-  
 तेजिन्दर कौर  
 निदेशक

स्थान: नई दिल्ली  
 तिथि: 23.12.2019

DIN:06799570

**शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड**

**(पूर्व में अर्चित होल्डिंग्स एण्ड क्रेडिट्स लिमिटेड)**  
 पंजी. कार्यालय: 37, दूसरा तल, रानी झॉंसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055  
 ईमेल: sharplinebroadcastlimited@gmail.com,  
 वेबसाइट: www.sharplinebroadcast.in  
 CIN: L22100DL1990PLC039464, फोन: 91-11 23552627

**सूचना**

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की अ-साधारण सभा बुधवार, 15 जनवरी, 2020 को 10.00 बजे पूर्वा. में 37, दूसरा तल, इण्डेवाला, मध्य दिल्ली-110008 में आयोजित की जायेगी।
1. जिसमें ईजीएम की सूचना में वर्णित विशेष व्यवसायों को निष्पादित किये जाएंगे।
  2. ईजीएम की सूचना 23 दिसम्बर, 2019 को सदस्यों को भेज दी गई है तथा वह evoting@nsdl.co.in तथा www.sharplinebroadcast.in पर अपलोड कर दी गई है।
  3. कट-ऑफ तिथि अर्थात् 3 जनवरी, 2020 को शेयर धारित करने वाले सदस्य नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि रविवार, 12 जनवरी, 2020 को (9.00 बजे पूर्वा.) से मंगलवार, 14 जनवरी, 2020 (5.00 बजे अप-तक) जारी रहेगी।
  4. ई-वोटिंग के लिये उक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
  5. जिन सदस्यों ने ईजीएम से पूर्व ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे ईजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
  6. जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ मत पत्र द्वारा सभा में मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का शेयरधारक बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे अपने फोलिओ नं./डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेख कर evoting@nsdl.co.in अथवा www.sharplinebroadcast.in पर ई-मेल भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि ऐसे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के लिये आप अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
  7. स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री विवेक कुमार, कार्यरत कम्पनी सचिव, वी कुमार एंड एसोसिएट्स को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
  8. यदि ई-वोटिंग से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो कृपया evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्युअल/Frequently Asked Questions (FAQs) देखें या श्री विरेन्द्र राणा, निदेशक स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, अंतरण एजेन्ट के रजिस्ट्रार, 9, डी-153ए, 1ला तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 से टेलीफोन नं. 011-64732681 से 88 पर सम्पर्क करें तथा virenr@skylin-erta.com पर ई-मेल करें। सदस्यगण उक्त पते पर कम्पनी को भी लिख सकते हैं अथवा sharplinebroadcastlimited@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
  9. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 101 (नियमावली सहित) के अनुपालन में एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 4 जनवरी, 2020 से 14 जनवरी, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक उक्त ईजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से  
 शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिये  
 हस्ता./-  
 पारस साह  
 निदेशक

स्थान: नई दिल्ली  
 तिथि: 23.12.2019

DIN:07070206